

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 1—नवम्बर 7, 2014 (कार्तिक 10, 1936)

No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 1—NOVEMBER 7, 2014 (KARTIKA 10, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना आयोग
(भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण)

नई दिल्ली—110001, दिनांक 15 सितम्बर 2014

सं. ए—19011/125/14—यू.आई.डी.ए.आई.—भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.), योजना आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं. ए—12013/21/डी.डी./हैडक्वार्टर/11—यू.आई.डी.ए.आई. दिनांक 09.05.2014, तथा महानिदेशक, लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय) के कार्यालय के रिलीविंग ऑर्डर सं. प्रशा.—I/16-7/डेपुटेशन जनरल/2014-15/1962-1980 दिनांक 11.09.2014 के अनुसरण में, श्री रजनीश झा, ने दिनांक 12.09.2014 (अपराह्न) से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय) में, वेतन बैंड रु. 15,600-39,100+6600 ग्रेड पे, में प्रतिनियुक्ति आधार पर उपनिदेशक के पद का कार्यभार संभाल लिया है। उनकी यह तैनाती तीन वर्ष के लिए या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) की जाती है।

एस.डी. शर्मा, सहा. महानिदेशक (स्था.)

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

सं. ए—19011/2/85—प्रशा.—I(वि.का.)—राष्ट्रपति, डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल, सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 के अपराह्न से उनके पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से मुक्त करते हैं ताकि

वे दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 तक केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के चंडीगढ़ पीठ में न्यायिक सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण कर सकें।

रवींद्र कुमार, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्टूबर 2014

सं. ए-12023/5/2003-प्रशा. III (वि.का.)—आयकर अपीलीय अधिकरण सदस्य (भर्ती एवं सेवा-शर्तें) नियम, 1963 के नियम 11 के अनुसरण में, अधिवर्षिता की आयु होने पर आयकर अपीलीय अधिकरण के श्री डी. के. श्रीवास्तव, लेखा सदस्य दिनांक 31 जुलाई, 2014 के अपराहन को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

डी. चौधरी, अवर सचिव

सं. ए-12023/12/95-प्रशा. III (वि.का.)—आयकर अपीलीय अधिकरण सदस्य (भर्ती एवं सेवा-शर्तें) नियम, 1963 के नियम 11 के अनुसरण में, अधिवर्षिता की आयु होने पर आयकर अपीलीय अधिकरण के श्री उत्तम बीर सिंह बेदी, न्यायिक सदस्य दिनांक 28 जुलाई, 2014 के अपराहन को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

डी. चौधरी, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

सं. आई-14012/12/2014-आई.पी.एस.-4—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित 66 आर.आर. (2013 बैच) के भा.पु.से. परिवीक्षाधीन अधिकारियों, जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा, 2012 में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया था, के सिविल सेवा परीक्षा, 2013 में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर, उनके भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए चयन होने पर उनके नामों के सामने लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा से उनकी तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार करते हैं :—

क्र०सं०	आई०पी०एस० परिवीक्षाधीन अधिकारी का नाम सर्व श्री	संवर्ग	बैच	तकनीकी त्यागपत्र की तिथि
1.	गौरव अग्रवाल	राजस्थान	2013	28.08.2014 (अप्रा०)
2.	सुभम चौधरी	केरल	2013	28.08.2014 (अप्रा०)
3.	अभी प्रसाद	मध्य प्रदेश	2013	28.08.2014 (अप्रा०)
4.	चंचल राणा	ओड़िशा	2013	28.08.2014 (अप्रा०)
5.	प्रेम रंजन सिंह	राजस्थान	2013	28.08.2014 (अप्रा०)
6.	पवन यादव	मणिपुर-त्रिपुरा	2013	28.08.2014 (अप्रा०)
7.	सुश्री प्रेरणा शर्मा	हरियाणा	2013	28.08.2014 (अप्रा०)
8.	जसप्रीत सिंह	झारखण्ड	2013	28.08.2014 (अप्रा०)
9.	राहुल कुमार आर्य	उत्तर प्रदेश	2013	28.08.2014 (अप्रा०)
10.	आशुतोष गर्ग	उत्तराखण्ड	2013	28.08.2014 (अप्रा०)

अरविन्द गौड़, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 2014

सं. आई-14011/22/2014-आई पी एस-I (1)—भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 08.10.2014 को चयन समिति की दिनांक 24.07.2014 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2013 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग में कुल 7 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु महाराष्ट्र पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :—

चयन सूची 2013

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि
1.*	पी. बी. सावंत	25.01.1962
2.	एच. एम. बैजल	10.05.1962
3.	पी. सी. पाटिल	01.06.1972
4.	एस. बी. पाटिल	17.05.1968
5.	वी. के. परदेशी	12.10.1968
6.	एस. डी. अवाद	16.11.1970
7.	एस. टी. राठौड	03.02.1971

*क्रम संख्या 1 पर दिये गये नाम को उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के निपटान एवं राज्य सरकार से सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र प्रदान करने के अध्यक्षीन अनन्तिम रूप में शामिल किया गया है।

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव

सं. आई-14011/22/2014-आई पी एस-1 (II)—राष्ट्रपति भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत महाराष्ट्र संवर्ग प्रदान करते हैं :—

चयन सूची 2013

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि
1.	एच. एम. बैजल	10.05.1962
2.	पी. सी. पाटिल	01.06.1972
3.	एस. बी. पाटिल	17.05.1968
4.	वी. के. परदेशी	12.10.1968
5.	एस. डी. अवाद	16.11.1970
6.	एस. टी. राठौड	03.02.1971

2. यह नियुक्तियाँ अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
(प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 सितम्बर 2014

सं. ए-19013/04/2014 प्र.सु. (प्रशा.1)—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10 सितम्बर, 2014 के आदेश सं. 4/2/2014-सीएस.1(डी) के अनुसरण में श्रीमती सुमिता दासगुप्ता को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में दिनांक 19.09.2014 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक उप सचिव नियुक्त करते हैं।

ए. के. साहनी, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2014

सं. क्यू/पीबी-II/6616/10/2001—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात, श्री काली चरण दूबे (जन्म तिथि 25.07.1954), मंत्रालय में निजी सचिव [भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग में ग्रेड-I आशुलिपिक] 31 जुलाई 2014 के अपराह्न में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

राजीव अरोड़ा, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-पीआर)

सं. क्यू/पीबी-II/6616/38/2011—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात, श्री आलोक कुमार (जन्म तिथि 18.07.1954), मंत्रालय में निजी सचिव [भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग में ग्रेड-I आशुलिपिक] 31 जुलाई 2014, अपराह्न में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

राजीव अरोड़ा, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-पीआर)

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2014

सं.-09/पी बी-II/2014—राष्ट्रपति, मंत्रालय के दिनांक 20 अगस्त, 2014, कार्यालय ज्ञापन सं. क्यू/सी ए डी/584/4/2014 के अनुपालन में भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-II के अधिकारियों की चयन सूची को भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-I में पदोन्नति स्थानापन्न हेतु भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-II के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तिथि से भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-I में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम (श्रीमती/सुश्री/श्री)	जन्म तिथि	पदोन्नति की तिथि
1	हरपाल सिंह	25/09/78	31/07/2014
2	पी. मनी	05/08/59	31/07/2014
3	वी. जी. जोशी	12/05/59	31/07/2014
4	जी. अनिल कुमार	30/06/68	31/07/2014
5	एस. पी. वासन	05/05/62	31/07/2014
6	धीरज कत्याल	01/09/68	31/07/2014
7	राजबीर शर्मा	10/03/66	31/07/2014
8	संजय कुमार मल्होत्रा	06/09/68	18/08/2014

2. नियुक्ति के अन्य नियम व शर्तें वही होंगी जो भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-I के अन्य अधिकारियों के संबंध में लागू होती हैं।

लतिका ग़ोवर, प्रशासनिक अधिकारी (पी बी-II)

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

सं. 29/पीए-11/2014—राष्ट्रपति भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड-1 के निम्नलिखित अधिकारी को उसके नाम के समक्ष उल्लिखित तिथि से भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्त करते हैं:-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति की तिथि
1.	श्री डी वी एन राव	01.10.2014

2. उपरोक्त अधिकारी भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति की तिथि से दो वर्षों की अवधि तक परीक्षाधीन रहेगा।

3. उपरोक्त नियुक्ति न्यायालय के वैसे निर्णय के अधीन होंगी, जिनका इन पदोन्नति पर असर पड़ सकता है।

बी. वनलालवाना, निदेशक

समन्वय प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2014

सं. 1/कोर्ड/2014—भारत के राष्ट्रपति प्रो. लोकेश चंद्रा को 27 अक्टूबर, 2014 से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय संस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के अगले अध्यक्ष के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पूजा कपूर, संयुक्त सचिव (समन्वय)

प्रोटोकॉल उप प्रमुख (एफ) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2014

सं. डी III/460/सी एफ-30/2013—भारत के राष्ट्रपति मुंबई में सूरीनाम गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्री शेकर वायुवेगुला की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री शेकर वायुवेगुला के कौंसली क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र राज्य होगा, जिसका केंद्र मुंबई होगा।

संजीव खंडूरी, प्रोटोकॉल उप प्रमुख (एफ)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

सं. ए-32014/3/2013—संवर्ग—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 सितम्बर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/11/2014—सी.एस.—I (यू) के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री राजेश कुमार सिन्हा को 25 सितम्बर, 2014 के पूर्वाह्न से पूर्ति प्रभाग में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित निबंधन व शर्तों के अधीन होगी :—

- यह तदर्थ पदोन्नति 31 मई, 2015 तक अथवा उक्त पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक होगी।
- यह तदर्थ पदोन्नति उक्त ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा की उसी ग्रेड में वरिष्ठता के उद्देश्य के लिए अथवा उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए गणना नहीं की जाएगी।

अजय कुमार, अवर सचिव

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 सितम्बर 2014

सं. ए-42011/2/2012—प्रशासन—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.09.2014 के आदेश सं. 4/2/2014—सी.एस.—I (डी)(पार्ट.) के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्रीमती कल्पना नारायण को लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय में निदेशक के रूप में दिनांक 01.08.2014 अपराह्न से नियुक्त करते हैं।

ज्योति माथुर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2014

सं. ए-19011/240/2014—प्रशासन—राष्ट्रपति, श्री नीरज कुमार गुप्ता, आई ए एस (यू पी : 82) को लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में अपर सचिव के पद और वेतनमान में 29.09.2014 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेश होने तक सचिव, लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी आर पी एस ई) के रूप में नियुक्त करते हैं।

कल्पना नारायण, निदेशक

दिनांक 1 अक्टूबर 2014

सं. ए-19011/241/2014—प्रशासन—कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति के आदेश संख्या 4/19/2014—ई ओ (एस एम—I), दिनांक 24 सितम्बर, 2014 के अनुसरण में, राष्ट्रपति श्री कपिल देव त्रिपाठी आई ए एस (ए एम : 80) को 30 सितम्बर, 2014 (पूर्वाह्न) से सचिव, लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय में नियुक्त करते हैं।

कल्पना नारायण, निदेशक

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली—110011, दिनांक 8 अक्टूबर 2014

सं. ए-32013/07/2014—एन.टी.एच.—राष्ट्रपति, निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक राष्ट्रीय परीक्षण शाला में रु. 15,600—39,100/— के पे-बैण्ड-3 के साथ 5,400/— रु. के ग्रेड-पे में पूर्णतः तदर्थ आधार पर विभिन्न विषयों में वैज्ञानिक एस.बी. के पद पर प्रोन्नत करते हैं :—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	विषय	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	श्री के. मोहनन	(इलैक्ट्रीकल)	27.08.2014(अपराह्न)
2	श्री डी.जी. देसाई	(इलैक्ट्रीकल)	27.08.2014(अपराह्न)
3	श्री रमेश अरोड़ा	(मैकेनीकल)	28.08.2014(पूर्वाह्न)
4	श्री एम.आर. वाघ	(मैकेनीकल)	27.08.2014(अपराह्न)
5	श्री एस.एम. परनेरिया	(सिविल)	27.08.2014(अपराह्न)
6	श्रीमती पदमा नटराजन	(कैमिकल)	27.08.2014(अपराह्न)
7	श्रीमती भवानी सुधीर	(कैमिकल)	01.09.2014(पूर्वाह्न)
8	श्री एन. ऐलेजर जोसेफ	(कैमिकल)	01.09.2014(पूर्वाह्न)
9	श्री अविनाश कुमार	(आर.पी.टी.)	27.08.2014(अपराह्न)

डी. के. सोनकर, उपनिदेशक (एन.टी.एच.)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली—110011, दिनांक 15 अक्टूबर 2014

सं. ए-12025/111/2010—सीएचएस 1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. संतोष कुमार को दिनांक 03 जनवरी, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (15,600—39,100/— रुपए) + ग्रेड वेतन 5,400/— रुपए में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. संतोष कुमार को आसूचना ब्यूरो (गृह मंत्रालय) के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। चूंकि डॉ. संतोष कुमार दिनांक 05.02.2011 से 17.07.2011 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे, इसलिए वे दिनांक 14.06.2013 तक परीवीक्षाधीन रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

सं. ए-38013/2/2014-प्रशा.-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के श्री रमेश कुमार शर्मा, अनुभाग अधिकारी, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.09.2014 (अपराहन) को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए।

जितेन्द्र सिंह, उप निदेशक (प्रशा.)

दिनांक 14 अक्टूबर 2014

सं. ए-38012/2/2014-प्रशा.-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के डॉ. शशांक यशवंत कोठारी, विशेष महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.09.2014 (अपराहन) को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए।

जितेन्द्र सिंह, उप निदेशक (प्रशा.)

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2014

सं. 29-6/2009-पीपी-स्थापना—राष्ट्रपति ने डॉ. अवनेश कुमार बोहरिया को दिनांक 06.03.2014 (अपराहन) से पौध संरक्षण संगरोध तथा भण्डारण निदेशालय, फरीदाबाद में सीधी भर्ती आधार पर वेतन बैंड-3 (15,600—39,100/— रु.) तथा साथ ही 5,400/— रु. के ग्रेड पे में सहायक निदेशक (कीट विज्ञान), सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिवीय) पद पर नियुक्त किया है।

एम. एल. अटल, अवर सचिव, पीपी-I

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर 2014

सं. 12-4/2013-प्रशासन-III (एफएफ)—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति श्री तरिन्दर कुमार वेद, वरिष्ठ तकनीकी सहायक को इस विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र में चारा शस्यविज्ञानी के पद पर 15,600—39,100/— रुपए के वेतनमान, (पे. बैंड-3) + ग्रेड वेतन 5,400/— रुपए पर 31.07.2014 (पूर्वाहन) से नियुक्त करते हैं।

एस.एस. काण्डपाल, निदेशक (एफएफ)

ग्रामीण विकास मंत्रालय
(भूमि संसाधन विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 26 सितम्बर 2014

सं. ए-19012/1/2014-प्रशा.—राष्ट्रपति, आईईएस के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) स्तर के अधिकारी, श्री सुरिन्द्र सिंह को 04 सितम्बर, 2014 के पूर्वाहन से भूमि संसाधन विभाग में आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

अनूप कुमार, अवर सचिव

दिनांक 9 अक्टूबर 2014

सं. ए-19013/3/2011-प्रशा.—राष्ट्रपति, भूमि संसाधन विभाग में श्री बी. बी. पटेल (आईओएफएस : 2000) द्वारा धारित उप सचिव के पद को उनके हेतु वैयक्तिक उपाय के रूप में 19 सितम्बर, 2014 से 20.05.2016 तक की अवधि (अर्थात् सीएसएस और गैर-सीएसएस दोनों में 7 वर्ष की सम्मिलित अवधि) के लिए निदेशक के रूप में पुनः पदनामित करते हैं। उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि 21.05.2009 से आरंभ है।

अनूप कुमार, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 अगस्त 2014

सं. 16011/2/2002-एससीडी-IV—राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 56 के अनुसरण में, सुश्री किरण पुरी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा श्री गुलाब सिंह, उप सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, को तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेशों तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के निदेशक मंडल में सरकारी निदेशक नियुक्त करते हैं।

जी. के. द्विवेदी, निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 अगस्त 2014

सं. ए-32014/1/2013-स्था.-I (भाग-I)—राष्ट्रपति, संयुक्त सीमित विभागीय परीक्षा, 2009, 2010 तथा 2011 के परिणामों के आधार पर, श्री अजय कुमार (चयन सूची वर्ष 2010/रैंक संख्या 195) को 19 अगस्त, 2013 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में श्री अजय कुमार की नियुक्ति निम्नोक्त न्यायालयीय मामलों के परिणामों तथा इनसे जुड़े हुए किसी भी मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी अन्य आदेश के अध्वधीन होगी :-

- (i) माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में श्री राजीव आर. तथा अन्य द्वारा भारत संघ के विरुद्ध दायर की गई ओए सं. 4135/2012, एमए सं. 3477/2012।
- (ii) माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में श्री एम. आर. मीणा तथा अन्य द्वारा भारत संघ के विरुद्ध दायर की गई ओए सं. 4082/2012 तथा एमए सं. 3448/2012।
- (iii) श्री शान्ती लाल बौरासी तथा अन्य द्वारा भारत संघ के विरुद्ध माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में दायर की गई ओए सं. 4141/2012।

औजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

दिनांक 11 सितम्बर 2014

सं. ए-32014/1/2014-स्था.-I—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 के का.ज्ञा.सं. 6/10/2013-सी.एस. I(एस) के तहत उनके नामांकन के आधार पर, राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रमती लक्ष्मी अमर को 18 जून, 2014 के पूर्वाह्न से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर 31 दिसम्बर, 2014 तक अथवा अधिकारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में श्रीमती लक्ष्मी अमर की नियुक्ति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.08.2014 के का.ज्ञा.सं. 6/17/2012-सी.एस.-I (एस) में उल्लिखित शर्तों के अध्वधीन है।

औजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 सितम्बर 2014

सं. ए-12022/2/2010-स्था. (वॉल. II)—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के का. ज्ञा. सं. 4/8/2013-सीएस- II(क) (भाग-I) के तहत सीएसएसएस के निजी सचिव के ग्रेड में चयन सूची वर्ष 2012 (विस्तारित) में नाम शामिल किए जाने पर श्रीमती नीना गुप्ता (सीएसएल सं. 1343) का नामांकन किए जाने के परिणामस्वरूप, श्रीमती नीना गुप्ता (सीएसएल सं. 1343) को दिनांक 16 सितम्बर, 2014 (पूर्वाह्न) से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में वर्ष 2012 की चयन सूची (विस्तारित) के लिए वेतन बैंड पीबी-2 (9,300—34,800/- रुपये) तथा 4,800/- रुपये ग्रेड वेतन में सीएसएसएस के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

मैत्रेयी राय, उप सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

सं. ईआरबी-1/2014/2/50—राष्ट्रपति जी, डॉ. एम. के. बुधलाकोटी, आईआरएमएस, रेलवे बोर्ड को ग्रेड रु. 80,000/— (निर्धारित) में 18.09.2014 के पूर्वाह्न से महानिदेशक, रेलवे स्वास्थ्य सेवा, रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 2014

सं. ए-12025/2/2005—एमए—राष्ट्रपति, कैप्टन राकेश कुमार अवस्थी, समुद्री सर्वेक्षक को वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मुम्बई, नौवहन महानिदेशालय के कार्यालय में 25.08.2014 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक उप समुद्री सलाहकार—सह—वरिष्ठ उप निदेशक (तकनीकी) के पद पर रु. 37,400—67,000/— + ग्रेड पे रु. 8,700/— के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

कंचन बाला हमज़ा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर 2014

सं. 18/2014 फा.नं. 2/2/2011—प्रशा. II—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.07.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/6/2013—सीएस. I(यू) के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारियों, जो वर्तमान में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर कार्यरत हैं, को दिनांक 04.07.2014 के पूर्वाह्न से चयन सूची वर्ष-2012 के लिए नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के ग्रेड-I पद पर नियुक्त किया जाता है :—

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	सीएसएल सं.	कार्यालय जहां कार्यरत हैं
1.	सतिन्दर कौर	7425	विद्युत मंत्रालय
2.	श्रीरामदास वेंकटेश्वरलु	7428	विद्युत मंत्रालय
3.	अरुण अग्रवाल	7447	विद्युत मंत्रालय
4.	बी. एम. मंडल	7964	विद्युत मंत्रालय
5.	ई. टोप्पो	8010	विद्युत मंत्रालय
6.	प्रकाश एक्का	8014	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

2. उपर्युक्त अधिकारियों की अवर सचिव के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित की गई शर्तों के अधीन है।

पी. पी. बोस, अवर सचिव

दिनांक 26 सितम्बर 2014

सं. 22/2014 फा.सं. 2/6/2014—प्रशा.—II—राष्ट्रपति, श्री अनिल कुमार सिंह, आईएस (यूटी : 1995) को उनके केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 07.03.2016 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए 25 सितम्बर, 2014 के पूर्वाह्न से पे बैंड-4 (37,400—67,000/— रुपए ; ग्रेड पे 10,000/— रुपए) में विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. पी. बोस, अवर सचिव

PLANNING COMMISSION
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

New Delhi-110001, the 15th September 2014

No. A-19011/125/14-UIDAI.—In pursuance of Unique Identification Authority of India (UIDAI), Planning Commission, New Delhi letter No. A-12013/21(DD/HQ)/11-UIDAI dated 09.05.2014 and O/o the Director General of Audit (Central Expenditure), New Delhi relieving Order No. Admn.I/16-7/Deptn. General/2014-15/1962-1980 dated 11.09.2014, Shri Rajnish Jha has assumed the charge of the post of Deputy Director in HQ, Unique Identification Authority of India, Delhi w.e.f 12.09.2014 (A/N) in the pay band of Rs.15,600—39,100/-,+ Grade Pay of Rs. 6,600/- on deputation basis for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

S. D SHARMA, Assistant Director General (Estt)

MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 30th December 2013

No. A-19011/2/85-Admn.I(LA)—The President is pleased to relieve Dr. Brahm Avtar Agrawal of his duties and responsibilities as Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, w.e.f the afternoon of 30th December, 2013, to enable him to join as a Judicial Member, Central Administrative Tribunal, Chandigarh Bench, by 31st December, 2013.

RAVINDRA KUMAR, Deputy Secretary

New Delhi, the 13th October 2014

No. A-12023/5/2003-Admn.III (LA)—On attaining the age of superannuation, Shri D. K.Srivastava, Accountant Member, Income Tax Appellate Tribunal, stands retired from Government service with effect from the afternoon of 31st July, 2014 in accordance with Rule 11 of the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963.

D. CHOUDHURY, Under Secretary

No. A-12023/12/1995-Admn.III (LA)—On attaining the age of superannuation, Shri Uttam Bir Singh Bedi, Judicial Member, Income Tax Appellate Tribunal, stands retired from Government service with effect from the afternoon of 28th July, 2014 in accordance with Rule 11 of the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963.

D. CHOUDHURY, Under Secretary

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 9th October 2014

No. I-14012/12/2014-IPS.IV—Consequent upon their selection for appointment to Indian Administrative Service on the basis of qualifying the Civil Services Examination, 2013, the President is pleased to accept the technical resignation of the following IPS Probationers of 66 RR (2013 Batch) who were appointed to the Indian Police Service on the basis of the Civil Services Examination, 2012 from the Indian Police Service with effect from dates mentioned against their names below :—

Sl. No.	Name of IPS Probationer S/Shri	Batch	Cadre	Date of acceptance of technical resignation
1.	Gaurav Agrawal	2013	RJ	28.08.2014 (AN)
2.	Shubham Chaudhary	2013	KL	28.08.2014 (AN)
3.	Avi Prasad	2013	MP	28.08.2014 (AN)
4.	Chanchal Rana	2013	OD	28.08.2014 (AN)
5.	Prem Ranjan Singh	2013	RJ	28.08.2014 (AN)

Sl. No.	Name of IPS Probationer S/Shri	Batch	Cadre	Date of acceptance of technical resignation
6.	Pawan Yadav	2013	MT	28.08.2014 (AN)
7.	Ms Perna Sharma	2013	HY	28.08.2014 (AN)
8.	Jaspreet Singh	2013	JH	28.08.2014 (AN)
9.	Rahul Kumar Arya	2013	UP	28.08.2014 (AN)
10.	Ashutosh Garg	2013	UK	28.08.2014 (AN)

ARVIND GAUR, Under Secretary

New Delhi, the 15th October 2014

No. I-14011/22/2014-IPS-I(I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1955, the Union Public Service Commission has on 08.10.2014, approved the Select List of the year 2013 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 24.07.2014, containing the names of the following State Police Service officers of Maharashtra, towards filling up 7 substantive vacancies in the Maharashtra Cadre of Indian Police Service :—

Select List 2013

Sl. No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1*	P. B. Sawant	25.01.1962
2	H. M. Baijal	10.05.1962
3	P. C. Patil	01.06.1972
4	S. B. Patil	17.05.1968
5	V. K. Pardeshi	12.10.1968
6	S. D. Awad	16.11.1970
7	S. T. Rathod	03.02.1971

*The name at Sl. No. 1 has been included in the list provisionally subject to clearance in the criminal proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secretary

No. I-14011/22/2014-IPS-I(II)—In exercise of the power conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Maharashtra Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Maharashtra Cadre under sub-rule (1) of rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List 2013

Sl. No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1*	H. M. Baijal	10.05.1962
2	P. C. Patil	01.06.1972
3	S. B. Patil	17.05.1968
4	V. K. Pardeshi	12.10.1968

Sl. No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
5	S. D. Awad	16.11.1970
6	S. T. Rathod	03.02.1971

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification

HARISH CHANDRA RAI, Under Secretary

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
(DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES)

New Delhi-110001, the 23rd September 2014

No. A-19013/04/2014-AR(Ad.I)—In pursuance to Department of Personnel & Training's Order No. 4/2/2014-CS.I(D) dated 10th September, 2014, the President is pleased to appoint Smt. Sumita Dasgupta as Deputy Secretary in the Department of Administrative Reforms & Public Grievances with effect from the afternoon of 19.09.2014 until further orders.

A. K. SAWHNEY, Under Secretary

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 1st August 2014

No. Q/PB-II/6616/10/2001—On attaining the age of superannuation Shri Kali Charan Dubey (DoB : 25.07.1954), Private Secretary [Grade I Stenographer in Stenographer' Cadre of IFS(B)] in this Ministry, retired from the Government service in the afternoon of 31st July, 2014.

RAJEEV ARORA, Administrative Officer (PB-PR)

No. Q/PB-II/6616/38/2011—On attaining the age of superannuation Shri Alok Kumar (DoB : 18.07.1954), Private Secretary [Grade I Stenographer in Stenographer' Cadre of IFS(B)] in this Ministry, retired from the Government service in the afternoon of 31st July, 2014.

RAJEEV ARORA, Administrative Officer (PB-PR)

New Delhi, the 29th August 2014

No. 09/PB-II/2014—In pursuance of Ministry's OM No. Q/ CAD/584/4/2014 dated 20th August, 2014 Select list of officers of Grade-II of Stenographers' Cadre of IFS (B) for officiating promotion to Grade I of Stenographers' Cadre of IFS (B), the President is pleased to appoint the following officer belonging to Grade II Stenographers' Cadre of IFS (B) to officiate in Grade I of Stenographers' Cadre of IFS (B) with effect from the date mentioned against his name :—

S.No.	Name of the official (Smt./Shri)	Date of Birth	Date of promotion
1.	Harpal Singh	25/09/78	31/07/2014
2.	P. Mani	05/08/59	31/07/2014
3.	V. G Joshy	12/05/59	31/07/2014
4.	G. Anil Kumar	30/06/68	31/07/2014
5.	S P Vasan	05/05/62	31/07/2014
6.	Dhiraj Katyal	01/09/68	31/07/2014
7.	Rajbir Sharma	10/03/66	31/07/2014
8.	Sanjay Kumar Malhotra	06/09/68	18/08/2014

2. The other terms and conditions of the appointment will be the same as applicable to other officers of Grade-I of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service (B).

LATIKA GROVER, Administrative Officer (PB-II)

New Delhi, the 9th October 2014

No. 29/PA-II/2014—The President is pleased to appoint the following officer of Grade-I of IFS(B) to the Senior Scale of Indian Foreign Service with effect from the date mentioned against his name :—

S.No.	Name of the Officer	Date of Promotion to Senior Scale of IFS
1.	Shri D. V. N. Rao	01.10.2014

2. The above mentioned officer will be on probation for a period of two years from the date of his promotion to Senior Scale.

3. The above appointment will be subject to any Court decision, which may have a bearing on these promotions.

B. VANLALVAWNA, Director

COORDINATION DIVISION

New Delhi, the 29th October 2014

No. 1/Coord/2014—The President of India is pleased to appoint Prof. Lokesh Chandra as the next President of the Indian Council for Cultural Relations, New Delhi, for a period of three years with effect from 27th October, 2014.

POOJA KAPUR, Jt. Secy. (Coordination)

OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 29th September 2014

No. DIII/460/CF-30/2013—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Shaker Vayuvegula as the Honorary Consul of the Republic of Suriname in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Shaker Vayuvegula comprises the State of Maharashtra with the seat in Mumbai.

SANJEEV KHANDURI, Deputy Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY DEPARTMENT OF COMMERCE (SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the 9th October 2014

No. A-32014/3/2013-Cadre—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar Sinha, Section Officer of CSS Cadre as Grade-I (Under Secretary) of CSS Cadre on ad-hoc basis in Supply Division with effect from the forenoon of 25th September, 2014, in pursuance of DOP&T's O.M. No.5/11/2014-CS.I(U) dated 15th September, 2014.

2. The ad-hoc promotion is subject to the following terms & conditions :—

- (i) The period of ad-hoc promotion would be upto 31st May, 2015 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier;
- (ii) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS;
- (iii) The service rendered on ad-hoc basis in the Under Secretary Grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade.

AJAY KUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES (DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 3rd September 2014

No. A-42011/2/2012-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 4/2/2014-CS-I(D) (Pt.) dated 01.09.2014, the President is pleased to appoint Smt. Kalpana Narain, Director in the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, with effect from 01.08.2014.

JYOTI MATHUR, Under Secretary

New Delhi-110003, the 30th September 2014

No. A-19011/240/2014-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Neeraj Kumar Gupta, IAS (UP : 82) as Secretary, Board for Reconstruction of Public Sector Enterprises (BRPSE), Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, in the rank and pay of Additional Secretary, with effect from forenoon of 29.09.2014 and until further orders.

KALPANA NARAIN, Director

The 1st October 2014

No. A-19011/241/2014-Admn.— In pursuance of Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training, Appointments Committee of the Cabinet's Order No. 4/19/2014-EO(SM.I) dated 24th September, 2014, the President is pleased to appoint Shri Kapil Dev Tripathi, IAS (AM : 80) as Secretary, Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, w.e.f. afternoon of 30th September, 2014.

KALPANA NARAIN, Director

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS
FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
[DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS]

New Delhi-110 011, the 8th October 2014

No. A-32013/07/2014-NTH—The President is pleased to promote the following Scientific Officers to the post of Scientist SB in various discipline purely on ad-hoc basis in the National Test House in the Pay Band 3 of Rs.15,600—39,100/- with Grade pay of Rs. 5,400/- with effect from the date mentioned against them initially for a period of one year or till the posts are filled up on regular basis or until further orders whichever is the earliest :—

Sl. No.	Name of the Officer	Discipline	Date of taking over charge
1	Shri K. Mohanan	(Electrical)	27.08.2014 (A/N)
2	Shri D. G. Desai	(Electrical)	27.08.2014 (A/N)
3.	Shri Ramesh Arora	(Mechanical)	28.08.2014 (F/N)
4.	Shri M. R. Wagh	(Mechanical)	27.08.2014 (A/N)
5.	Shri S. M. Parneria	(Civil)	27.08.2014 (A/N)
6.	Smt. Padma Natarajan	(Chemical)	27.08.2014 (A/N)
7.	Smt. Bhabani Sudhir	(Chemical)	01.09.2014 (F/N)
8.	Shri N. Elezer Joseph	(Chemical)	01.09.2014 (F/N)
9.	Shri Avinash Kumar	(RPT)	27.08.2014 (A/N)

D. K. SONKER, Deputy Director (NTH)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110 011, the 15th October 2014

No. A.12025/111/2010-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Santosh Kumar in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 [Rs. 15,600—39,100/-] + Grade Pay Rs. 5,400/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 03rd January, 2011 until further orders. Dr. Santosh Kumar is posted as Medical Officer under Intelligence Bureau (Ministry of Home Affairs). Dr. Santosh Kumar will be on probation till 14.06.2013 as he was on unauthorized absence from 05.02.2011 to 17.07.2011.

M. K. SHARVAR, Under Secretary

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 9th October 2014

No. A-38013/2/2014-Admn.-I—Shri Ramesh Kumar Sharma, Section Officer, of the Directorate General of Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 30.09.2014 (A.N.).

JITENDER SINGH, Dy. Director (Admn.)

The 14th October 2014

No. A-38012/2/2014-Admn.-I—Dr. Shashank Yeshwant Kothari, Spl. DGHS, of the Directorate General of Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 30.09.2014 (A.N.).

JITENDER SINGH, Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the October 2014

No. 29-6/2009-PP-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. Avnesh Kumar Bohria to the post of Assistant Director (Entomology) General Central Service, Group 'A' Gazetted (Non-Ministrial) in Pay Band-3 (Rs. 15600-39100) plus Grade pay Rs.5400/- on direct recruitment basis in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Faridabad w.e.f. 06.03.2014(F.N.).

M. L. ATAL, Under Secretary(PP-I)

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY DAIRYING AND FISHERIES

New Delhi, the 11th September 2014

No. 12-4/2013-Admn. III (FF)—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Sh. Terinder Kumar Vaid, Senior Technical Assistant, to the post of Fodder Agronomist at Regional Station for Forage Production and Demonstration, a subordinate office under this Department, on promotion basis, in the pay scale of Rs. 15,600-39,100 (PB 3) + 5400 (Grade Pay) w.e.f. 31.07.2014 (FN).

S. S. KANDPAL, Director (FF)

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF LAND RESOURCES)

New Delhi – 110 011, the 26th September 2013

No. A.19012/1/2014-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Surinder Singh, SAG level officer of IES as Economic Adviser in the Department of Land Resources with effect from the forenoon of 4th September, 2014.

ANOOP KUMAR, Under Secretary

The 9th October 2014

No. A.19013/3/2011-Admn.—The President is pleased to re-designate the post of Deputy Secretary held by Shri B.B. Patel, (IOFS:2000) in the Department of Land Resources as Director with effect from 19th September, 2014, as a measure personal to him for a period up to 20.05.2016 (i.e. the combined tenure of 7 years in both the stints CSS and Non-CSS put together). He counts his Central deputation tenure w.e.f. 21.05.2009.

ANOOP KUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
(DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT)

New Delhi, the 26th August 2014

No. 16011/2/2002-SCD-IV.—In terms of Article 56 of Articles of Association of National Scheduled Castes Finance & Development Corporation, the President is pleased to appoint Ms. Kiran Puri Joint Secretary & Financial Advisor, Ministry of Social Justice & Empowerment and Shri Gulab Singh, Deputy Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance as an Official Directors on the Board of Directors of National Scheduled Castes Finance & Development Corporation, with immediate effect and until further orders.

G. K. DWIVEDI, Director

New Delhi-110001, the 27th August 2014

No. A-32014/1/2013-Estt.I(Pt.I)—On the basis of results of the Combined Limited Departmental Examination, 2009, 2010 and 2011, the President is pleased to appoint Shri Ajay Kumar (Select List Year 2010/ Rank No.195), as Section Officer of CSS in the Ministry of Social Justice & Empowerment with effect from the forenoon of 19th August, 2013 and until further orders.

2. The appointment of Shri Ajay Kumar, to the Section Officers' Grade is subject to the outcome of the following court cases and also as per any other order by any competent court in any of the connected matters :—

- i. OA No. 4135/2012, MA No.3477/2012 filed by Shri Rajeev R & Ors Vs. UOI in CAT, New Delhi.
- ii. OA No. 4082/2012 & MA No. 3448/2012 filed by Shri M.R.Meena & Ors Vs. UOI in CAT, New Delhi.
- iii. OA No. 4141/2012 filed by Shri Shanti Lal Bourasi & Ors Vs. UOI in CAT, New Delhi.

AUJENDER SINGH, Under Secretary

The 11th September 2014

A-32014/1/2014-Estt.I—On the basis of her nomination by DOPT vide its O.M. No. 6/10/2013-CS.I(S) dated 31st December 2013, the President is pleased to appoint Smt. Laksmi Amar as Section Officer of CSS in the Ministry of Social Justice & Empowerment with effect from the forenoon of 18th June, 2014 on purely adhoc basis upto 31st December 2014 or till the date of retirement of the officer or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Smt. Laksmi Amar to the Section Officer's Grade is subject to the conditions mentioned in DOPT O.M. No. 6/17/2012-CS.I(S) dated 04.08.2014.

AUJENDER SINGH, Under Secretary

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110 003, the 30th September 2014

No. A-12022/2/2010-Estt.(Vol II)—Consequent upon nomination of Smt. Neena Gupta (CSL No. 1343) for inclusion in Select List Year 2012 (extended) of Private Secretary's Grade of CSSS, vide Department of Personnel & Training's OM No. 4/8/2013-CS-II(A)(Part-I) dated 16th September, 2014, the President is pleased to appoint Smt. Neena Gupta (CSL No. 1343) as Private Secretary of CSSS against the Select List Year 2012 (extended) in the Ministry of Minority Affairs in the Pay Band PB-2 (Rs.9,300—34,800/-) plus Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from 16th September, 2014 (F/N).

MAITREYEE ROY, Deputy Secretary

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 9th October 2014

No. ERB-I/2014/2/50—The President is pleased to appoint Dr. M.K. Budhalakoti, IRMS as Director General, Railway Health Services, Railway Board, in scale ₹ 80,000/- (fixed), with effect from the forenoon of 18-09-2014.

P. C. GAJBHIYE, Secretary
(Railway Board)

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 15th October 2014

No. A-12025/2/2005-MA—The President is pleased to appoint Capt. Rakesh Kumar Awasthi, Nautical Surveyor as Deputy Nautical Adviser-cum-Sr. DDG (Tech.) in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- + GP Rs. 8,700/- in the office of Mercantile Marine Department, Mumbai, Directorate General of Shipping with effect from 25.08.2014 (FN) and until further orders.

KANCHAN BALA HAMZA, Under Secretary

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 22nd September 2014

No.18/2014 – F.No.2/2011-Adm.II.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's OM No.5/6/2013-CS.I(U) dated 04.07.2014, the following officers of Ministry of Power, presently officiating as Under Secretary, on ad hoc basis, are appointed to the Grade-I of Central Secretariat Service (Under Secretary) on regular basis against the Select List year – 2012 with effect from the forenoon of 04th July, 2014 :—

S. No.	Name (S/Shri/Smt.)	CSL No.	Office where working
1.	Satinder Kaur	7425	Ministry of Power
2.	Siramdas Venkateshwarlu	7428	Ministry of Power
3.	Arun Aggrawal	7447	Ministry of Power
4.	B.M. Mondal	7964	Ministry of Power
5.	E.Toppo	8010	Ministry of Power
6.	Prakash Ekka	8014	Central Electricity Authority

2. The appointment of the above mentioned officers to the grade of Under Secretary on regular basis is subject to the conditions laid down in the Department of Personnel & Training's OM referred to above.

P. P. BOSE, Under Secretary

The 26th September 2014

No. 22/2014. F.No.2/6/2014-Adm.II.—The President is pleased to appoint Shri Anil Kumar Singh, IAS (UT:1995) as Joint Secretary in the Ministry of Power, in the PB-4 (Rs. 37,400—67,000/-; Grade Pay - Rs.10,000/-), with effect from the forenoon of the 25th September, 2014, for the balance period of his central deputation tenure i.e., up to 07.03.2016 or until further orders, whichever is earlier.

P. P. BOSE, Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in